



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1979/पौष 30, 1900

No. 23]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1979/PAUSA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1979

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

सां०का०वि० 35 (ख).—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में, यथास्थिति राजस्व और बीमा विभाग या राजस्व और बैंकिंग विभाग की, अधिसूचनाओं में जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट की गई हैं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में, तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1	सं० 237/75-के० उ० शु०, तारीख 9 दिसम्बर, 1975.	उक्त अधिसूचना में, परन्तु क के स्थान पर निम्नलिखित परस्तुक रखा जाएगा, अर्थात् "परन्तु यह

(1)

(2)

(3)

तब जब ऐसी इस्पात शिलि-काओं का विनिर्माण निम्नलिखित मामलों में किसी से किया जाता है, अर्थात्:—

(क) पुराना लोहा या इस्पात पिघलन स्क्रैप।

(ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट सामग्री तथा नए अप्रयुक्त इस्पात पिघलन स्क्रैप का सम्मिश्रण, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है।

(ग) उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आने वाले किसी प्रकार के कच्चा लोहे तथा उपर्युक्त (क) या (ख) में निर्दिष्ट सामग्रियों का सम्मिश्रण जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है।

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		(घ) विद्युत भट्टी की सहायता से इस्पात शिलिकाओं के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले स्कल स्क्रैप और रत्न तथा राइजर तथा उपर्युक्त (क), (ख) या (ग) में निविष्ट सामग्री का सम्मिश्रण और			निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी में किया जाता है, अर्थात्:—
		(ङ) लोहे और इस्पात के आयातित पिघलन स्क्रैप (लोहे और इस्पात के भारी पिघलन स्क्रैप से भिन्न), तथा उपर्युक्त (क), (ख), (ग) या (घ) में निविष्ट सामग्रियों का सम्मिश्रण ।”			(क) पुराना लोहा या इस्पात पिघलन स्क्रैप, (ख) उपर्युक्त (क) में निविष्ट सामग्री तथा नए अप्रयुक्त इस्पात पिघलन स्क्रैप का सम्मिश्रण, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है;
2. सं० 148/77-के० उ० शु०, तारीख 18 जून, 1977.	उक्त अधिसूचना में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:— “परन्तु यह और जहाँ कि ऐसी शिलिकाओं का विनिर्माण विद्युत भट्टी की सहायता से निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी में किया जाता है, अर्थात्:—				(ग) उक्त प्रथम अनुसूची की मब सं० 25 के अन्तर्गत आने वाले किसी प्रकार के कच्चा लोहे तथा उपर्युक्त (क) या (ख) में निविष्ट सामग्रियों का सम्मिश्रण जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है ;
	(क) पुराना लोहा या इस्पात पिघलन स्क्रैप,		4. सं० 152/77-के० उ० शु०, तारीख 18 जून, 1977 ।।	उक्त अधिसूचना में, चतुर्थ परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:— “परन्तु यह भी कि सारणी में उल्लिखित ऐसे उत्पादों की वशा में, जो निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से विद्युत भट्टी की सहायता से विनिर्मित किए गए हों, अर्थात्:—	(घ) विद्युत भट्टी की सहायता से इस्पात शिलिकाओं के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले स्कल स्क्रैप और रत्न तथा राइजर तथा उपर्युक्त (क), (ख) या (ग) में निविष्ट सामग्री का सम्मिश्रण ।”
	(ख) उपर्युक्त (क) में निविष्ट सामग्री तथा नए अप्रयुक्त इस्पात पिघलन स्क्रैप का सम्मिश्रण, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है ;				(क) पुराना लोहा या इस्पात पिघलन स्क्रैप;]
	(ग) उक्त प्रथम अनुसूची की मब सं० 25 के अन्तर्गत आने वाले किसी प्रकार के कच्चा लोहे तथा उपर्युक्त (क) या (ख) में निविष्ट सामग्रियों का सम्मिश्रण जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क दे दिया गया है ;				(ख) उपर्युक्त (क) में निविष्ट सामग्री तथा नए अप्रयुक्त इस्पात पिघलन स्क्रैप का सम्मिश्रण, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है;
	(घ) विद्युत भट्टी की सहायता से इस्पात शिलिकाओं के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले स्कल स्क्रैप और रत्न तथा राइजर तथा उपर्युक्त (क), (ख) या (ग) में निविष्ट सामग्री का सम्मिश्रण ।”				(ग) उक्त प्रथम अनुसूची की मब सं० 25 के अन्तर्गत आने वाले किसी प्रकार के कच्चा लोहे तथा उपर्युक्त (क) या (ख) में निविष्ट सामग्रियों का सम्मिश्रण जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क दे दिया गया है;
3. सं० 149/77-के० उ० शु०, तारीख 18 जून, 1977.	उक्त अधिसूचना में द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:— “परन्तु यह और कि जहाँ ऐसी शिलिकाओं का विनिर्माण विद्युत भट्टी की सहायता से				(घ) विद्युत भट्टी की सहायता से इस्पात शिलिकाओं के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले स्कल स्क्रैप और रत्न

1	2	3
		तथा राइजर तथा उपर्युक्त (क), (ख) या (ग) में निर्दिष्ट सामग्री का सम्मिश्रण,"
5. सं० 153/77-के० उ० तारीख 18 जून, 1977	शु०	उक्त अधिसूचना में, चतुर्थ परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:— “परन्तु यह भी कि सारणी में उल्लिखित ऐसे उत्पादों की बहा में, जो निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से वैद्युत भट्टी की सहायता से विनिर्मित किए गए हों, अर्थात्:— (क) पुराना लोहा या इस्पात पिघ- लन स्क्रैप; (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट सामग्री तथा नए अप्रयुक्त इस्पात पिघलन स्क्रैप का सम्मिश्रण, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है। (ग) उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आने वाले किसी प्रकार के कच्चा लोहे तथा उपर्युक्त (क) या (ख) में निर्दिष्ट सामग्रियों का सम्मि- श्रण जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क दे दिया गया है; (घ) वैद्युत भट्टी की सहायता से इस्पात शिलिकाओं के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले स्क्रैप स्क्रैप और रनर तथा राइजर तथा उपर्युक्त (क), (ख) या (ग) में निर्दिष्ट सामग्री का सम्मिश्रण,"

[सं० 15/79-सी ई/फा० सं० 139/2/78-सी एक्स-4]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, 20th January, 1979

CENTRAL EXCISE

G.S.R.35.(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, or Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto

annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. Notification No. and No. date	Amendment
(1)	(2)
1. 237/75-Central Excises, dated the 9th December, 1975.	In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— “Provided that such steel ingots are manufactured from any of the following materials, namely:— (a) old, iron or steel melting scrap; (b) a combination of the material referred to at (a) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid; (c) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appro- priate amount or duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (a) or (b) above; (d) skull scrap and runners and risers arising in the course of manu- facture of steel ingots with the aid of electric furnace, in combi- nation with the materials referred to at (a), (b) or (c) above; and (e) imported melting scrap of iron and steel (other than heavy melting scrap of iron and steel), in combi- nation with the mate- rials referred to at (a), (b), (c) or (d) above.”
2. 148/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.	In the said notification, for second proviso, the follo- wing shall be substituted, namely:— “Provided further that where such ingots are manufac- tured with the aid of elec- tric furnace from any of the following materials namely:—

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		<p>(a) old iron or steel melting scrap;</p> <p>(b) a combination of the material referred to at (a) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid;</p> <p>(c) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate amount of duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (a) or (b) above; and</p> <p>(d) skull scrap and runners and risers arising in the course of manufacture of steel ingots with the aid of electric furnace, in combination with the materials referred to at (a), (b) or (c) above."</p>			<p>with the aid of electric furnace, in combination with the materials referred to at (a), (b) or (c) above,"</p>
3. 149/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.		<p>In the said notification, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—</p> <p>"provided further that where such ingots are manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely:—</p> <p>(a) old iron or steel melting scrap;</p> <p>(b) a combination of the material referred to at (a) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid;</p> <p>(c) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate amount of duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (a) or (b) above; and</p> <p>(d) skull scrap and runners and risers arising in the course of manufacture of steel ingots</p>	4. 152/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.		<p>In the said notification, for the fourth proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—</p> <p>"Provided also that in the case of the products mentioned in the Table and manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely:—</p> <p>(a) old iron and steel melting scrap;</p> <p>(b) a combination of the material referred to at (a) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid;</p> <p>(c) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate amount of duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (a) or (b) above; and</p> <p>(d) skull scrap and runners and risers arising in the course of manufacture of steel ingots with the aid of electric furnace, in combination with the materials referred to at (a), (b) or (c) above,"</p>
			5. 153/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.		<p>In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—</p> <p>"Provided also that in the case of the products mentioned in the Table manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely:—</p> <p>(a) old iron or steel melting scrap;</p> <p>(b) a combination of the material referred to at (a) above with fresh</p>

(1)	(2)	(3)
		unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid;
	(c)	iron in any crude form falling under Item No.25 of the said First Schedule on which the appropriate amount of duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (a) or (b) above; and
	(d)	skull scrap and runners and risers arising in the course of manufacture of steel ingots with the aid of electric furnace, in combination with the materials referred to at (a), (b) or (c) above;"

[No.15/79-CE/F.No.139/2/78-CX.4]

सां. कां. निं. 36 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और मसक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 26 के अधीन आने वाले स्कल स्क्रैप और रनर तथा राइजर को उन पर उद्घाटनीय सम्पूर्ण उत्पादन-शुल्क से छूट देती है:

परन्तु ऐसे स्कल स्क्रैप और रनर तथा राइजर विद्युत भट्टी की सहायता से, इस्पात शिलिकाओं के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न हुए हों और उनका उपयोग उत्पादन-कारखाने में इस्पात शिलिकाओं के विनिर्माण में किया जाता हो।

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसे स्कल स्क्रैप और रनर तथा राइजर, विद्युत भट्टी की सहायता से इस्पात शिलिकाओं के विनिर्माण के लिए उत्पादन-कारखाने से अन्यत्र, उपयोग के लिए भेजे जाते हैं वहाँ, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपबर्णित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

[सं. 16/79-सी ई कां. सं. 139/2/78-सी एक्स-4]

एस० एन० बूसी, अवर सचिव

G.S.R.36(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts skull scrap and runners and risers, falling under Item No.26 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that such skull scrap and runners and risers have arisen in the course of manufacture of steel ingots with the aid of electric furnace and are used in the manufacture of steel ingots in the factory of production;

Provided further that where such skull scrap and runners and risers are cleared for use in the manufacture of steel ingots with the aid of electric furnace elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, shall be followed.

[No.16/79-CE/F.No.139/2/78-CX.4]

S.N. BUSI, Under Secy.

